

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम

पत्रांक :- 1439/37/मुजफ्फरपुर

दिनांक :- 03/10/20

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम।

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी,
नई अनुरक्षण नीति-2018 (3054),
ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार रु0 3.89878 (तीन लाख नवारी हजार आठ सौ अठहत्तर) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि किये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनुलग्नक- 1. विहित प्रपत्र में अधियाचना।

विश्वासभाजन

Kishan
03/10/20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम

Requisition Form for Scheme Head - MR (30S4) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Muzaffarpur West																		
S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 year Routine Main. (in Lakh)										
1	MIR-N/19-20 Muzaffarpur West/30	Pich Road - Sam Chapra Daranand	31507202231	13.12.2019	3.750	95.92800	61.15900	30.64063	230MBD/2020-21	28.02.2021	Work Complete	1576.000	25mm	5.00	57.25172	57.25172	3.89878	MB Copy Attached

Executive Engineer
RWD Works Division
Muzaffarpur West

Yib/03/10/2020

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/O:- construction of Road from					
MR-N/19-20 pich road to					
shree chakra Degamond					
Name of Agency:- Smt. Sarita Pandey					
Rasulpur Zilane Kazi mohammada					
MUZ					
No of Agreement:- 230MBD/2020-21					
Date of work order:- 29-05-2020					
Date of completion:- 28-02-2021					
Actual date of completion:-					
measurement of item					
(1) construction of subgrade					
and Earthen shoulder's					
with approved materials					
obtained from borrow pits					
-- do -- do comp					
3x2x30x0.60x0.30 = 32.40 m ³					
5x2x30x0.65x0.30 = 58.50 m ³					
6x2x30x0.70x0.30 = 75.60 m ³					
2x2x30x0.60x0.30 = 36.00 m ³					
4x2x30x0.65x0.30 = 46.80 m ³					
2x2x30x0.70x0.30 = 25.20 m ³					
5x2x30x0.65x0.30 = 58.50 m ³					
1x2x30x0.70x0.30 = 12.60 m ³					
Total = 396.00 m ³					

Continuation

Continuation